



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 22 May, 2023

PGCIL/R/E/23/00170

SHRI SADANANDA HEGGADAL MATH,  
Flat No 301, JJ APARTMENTS, No 1778/D/35, Magadhi Chord Road, 23rd Cross, BASAVESHWARA  
NAGAR, BENGALURU -560079 Karnataka

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,


कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 12 May, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा  
कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी  
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।  
ईमेल आईडी: [appellate.cc@powergrid.co.in](mailto:appellate.cc@powergrid.co.in)  
फोन नंबर: 0124-2571960

धन्यवाद,

भवदीय,  
  
23/5/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

**Sub: Reply to RTI Request of Shri SADANANDA HEGGADAL MATH, Bengaluru, Karnataka**

**(RTI Regn.Nos. PGCIL/R/E/23/00170)**

Sl. No.	Information sought:	POWERGRID's Reply:
1)	Please provide me with the current status of my PPO with reference to my POWERGRID employee number 60020513, PF account number E/DL/12892/00/60020513, EPS account number DSNHP00128820000005243, and UAN number 100159776348, including details on which stage of the PPO preparation process my application is currently at.	It may be noted that PPO is issued by EPFO after settlement of EPS-95 pension case. Since your case was received at CC from Region on 24.12.2021 and there was discrepancy in Aadhaar (i.e. Father's name was not matching with UAN), therefore, it could not be forwarded to EPFO. Accordingly, the Region as well as you were informed to correct the discrepancy in your Aadhaar. Now, since your duly corrected Aadhaar (as per UAN) has been received from the Region, the same is under process for onward submission to EPFO.
2)	Kindly provide me with a detailed account of the process followed to prepare my PPO, including the steps taken by both POWERGRID and EPFO. Please include any difficulties faced during the process, along with the dates of any communication made to me or concerned parties regarding the delay, and the steps taken to ensure the timely issuance of my PPO.	<b>Reply to Sl.No.2) &amp; 3):</b> The role of POWERGRID is limited to submission of Form-10D after completion of all the formalities by member with proper documentation as per the requirement of EPFO. The case is sent to EPFO, Delhi (South), Dwarka, New Delhi from where the Transfer Out is sent to Regional Provident Fund Offices and PPO is issued by the concerned Regional PF Offices with communication to the Pension Disbursing Bank and the members.
3)	Please provide me with the name and designation of the official responsible for processing my PPO, along with their contact details, and a copy of all relevant documents and notes related to my PPO file, including any correspondence exchanged between POWERGRID and EPFO during the preparation process.	

\*\*\*\*\*

*Adh.c*  
*24/05/23*